



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 चैत्र, 1940 (श०)

संख्या- 351 राँची, मंगलवार, 27 मार्च, 2018 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

17 मई, 2017 ई०

संख्या-05/सी०सी०ए०/01/05/2014 (खण्ड-II)-2729-- चूँकि झारखण्ड सरकार को संतुष्ट होने का पर्याप्त आधार है कि बोकारो/साहेबगंज/पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा जिला में आपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को निरुद्ध करने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना सामान्य दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत निरुद्ध करना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 अंगीकृत की धारा 12 (01) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हेतु झारखण्ड राज्य के बोकारो/साहेबगंज/पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा जिला के उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 12 (02) के अधीन पत्र निर्गत की तिथि से आगामी तीन माह तक शक्ति प्रत्योजित की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शिव प्रसन्न राम,
सरकार के अवर सचिव।